

प्रेस नोट

दिनांक 07.09.2022

***थाना अमरोहा नगर पुलिस द्वारा वाहन चोरी की घटना का खुलासा कर शातिर वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की हुई 02 मोटर साइकिल व अवैध चाकू बरामद* ।**

पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्री आदित्य लांगहे के कुशल निर्देशन एवं मार्गदर्शन में जनपद अमरोहा में अपराध नियंत्रण एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्री राजीव कुमार सिंह अपर पुलिस अधीक्षक अमरोहा के नेतृत्व एवं क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में थाना अमरोहा नगर पुलिस द्वारा वाहन चोरी की घटना का खुलासा कर शातिर वाहन चोर गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से चोरी की हुई 02 मोटर साइकिल व अवैध चाकू बरामद हुआ ।

संक्षिप्त विवरण:- कल दिनांक 06/07.09.2022 की रात्रि थाना अमरोहा नगर पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान पुलिस टीम को देखकर भागने का प्रयास कर रहे एक मोटर साइकिल सवार अभियुक्त विकास पुत्र नरेश निवासी ग्राम हादीपुर थाना नौगावां सादात जनपद अमरोहा को पीछा कर अजता बैंड की दुकान के पास से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से एक अवैध चाकू व चोरी की हुई मोटर साइकिल हीरो स्पलेण्डर प्लस रजि0न0 UP23X 2512 (फर्जी न0 प्लेट लगी) बरामद हुयी । गिरफ्तार अभियुक्त विकास की निशादेही पर रेलवे गोदाम स्टेशन अमरोहा पर पूल की ओर रोड के किनारे झाडी में अभियुक्त द्वारा चोरी कर छिपाकर रखी हुई एक अन्य मोटर साइकिल स्पलेण्डर प्रो बरामद हुई । गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध थाना अमरोहा नगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किये गये ।

पूछताछ पर अभियुक्त विकास द्वारा बरामद मो0सा0 हीरो स्पलेण्डर प्लस को दिनांक 05.09.2022 को मधुरम बैंकट हॉल से चोरी कर(सम्बन्धित मु0अ0सं0 462/22 धारा 379 भादवि थाना अमरोहा नगर) पहचान छिपाने व पुलिस से बचने के उद्देश्य से असली नम्बर प्लेट को तोडकर नाले में फेंक देना व फर्जी न0 प्लेट UP23X 2512 बनाकर लगाना बताया गया साथ ही बरामद दूसरी मोटर साइकिल स्पलेण्डर प्रो को 15-20 दिन पहले सब्जी मण्डी समिति से चोरी कर नम्बर प्लेट को तोडकर फेंक देना व चैसिस न0 को पीट कर अपठनिय कर रेलवे गोदाम स्टेशन अमरोहा पर पूल की ओर रोड के किनारे झाडी में छिपा देना बताया गया ।



***गिरफ्तार अभियुक्त*-**

1. विकास पुत्र नरेश निवासी ग्राम हादीपुर थाना नौगावां सादात जनपद अमरोहा ।

***बरामदगी का विवरण*- चोरी की हुई 02 मो0सा0 व अवैध चाकू ।**

1. मो0सा0 हीरो स्पलेण्डर प्लस रजि0न0 UP23X 2512 (फर्जी न0 प्लेट)
(सम्बन्धित मु0अ0सं0 462/22 धारा 379 भादवि थाना अमरोहा नगर)
2. स्पलेण्डर प्रो (बिना नम्बर प्लेट व चैसिस न0 अपठनिय) ।
3. एक अवैध चाकू ।

***अपराधिक इतिहास अभियुक्त विकास*:-**

1. मु0अ0सं0 469/2022 धारा 4/25 आर्म्स भादवि थाना अमरोहा नगर जनपद अमरोहा ।
2. मु0अ0सं0 468/2022 धारा 411,413,414,420 भादवि थाना अमरोहा नगर जनपद अमरोहा ।
3. मु0अ0सं0 462/2021 धारा 379 भादवि थाना अमरोहा नगर जनपद अमरोहा ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. प्रभारी निरीक्षक सुशील कुमार वर्मा थाना अमरोहा नगर जनपद अमरोहा ।
2. उ0नि0 सुभाष चौहान थाना अमरोहा नगर जनपद अमरोहा ।
3. का0 526 अभिषेक चौहान थाना अमरोहा नगर जनपद अमरोहा ।

PRO CELL AMROHA